

eClerx Services Limited

CIN: L72200MH2000PLC125319

Regd Office: Sonawala Building,

1st Floor, 29 Bank Street, Fort,

Mumbai – 400 023, India.

Phone: +91-22-66148301| Fax : +91 22 6614 8655

Email id : investor@eclerx.com | Website : www.eclerx.com

December 21, 2016

1. Securities and Exchange Board of India

Corporation Finance Department
Division of Corporate Restructuring
Plot No.C4-A,'G' Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400051

2. National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400051

**Fax: 022-2659 8237/38,
022-2659 8347/48**

3. Department of Corporate Services

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 023.

**Fax: 022-2272 3121/2037/2041/
022-2272 2039/3719/1278/2061**

Dear Sirs,

Sub: Post Buyback Public Announcement by eClerx Services Limited (the "Company")

**Stock Code: BSE - 532927
NSE - ECLERX**

Pursuant to Regulation 19 (7) of the SEBI (Buy back of Securities) Regulations, 1998, as amended ("Buyback Regulations"), the Company has made a Post Buyback Public Announcement dated December 20, 2016 for the Buyback of 1,170,000 fully paid up equity shares of the Company of face value of Rs. 10/- each at a price of Rs. 2,000/- per equity share on a proportionate basis from the equity shareholders of the Company, through the tender offer process. The same has been published in the newspapers, namely, all editions of Business Standard (English and Hindi) and Mumbai edition of Navshakti (Marathi) on December 21, 2016.

We are enclosing a copy of the Post Buyback Public Announcement for your information and records. It is requested to take note of the same and acknowledge receipt of this intimation.

Thanking you,

Yours faithfully
For eClerx Services Limited


Gaurav Tongia
Company Secretary



Encl: As above

Note ban puts brakes on scooters sales

After several months, Honda logs first decline in sales volume in November

AJAY MODI
New Delhi, 20 December

Demonetisation appears to be taking the fizz out of the fast-growing scooter segment. Sales of Honda's Activa declined for the first time in several months.

This has also upset Activa's position as the country's most sold two-wheeler for two consecutive months, October and November. Rival and former partner Hero's motorcycle Splendor has sold more than the Activa in these months.

Domestic scooter sales had grown by over 23 per cent in the first seven months (April-October) of the financial year to a record 3.61 million. In November, however, sales declined by 2 per cent.

The government had withdrawn high-denomination currencies from circulation from November 9, impacting cash transactions across sectors, including automobiles where down payments are made by many buyers in cash. In rural markets several transactions happen entirely in cash.

Scooters, unlike motorcycles, are an urban phenomenon and there sales were not impacted in the last two years when the country had deficit rainfall. They could not escape the brunt of demonetisation, however.


For Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI), the largest scooter maker in the country, sales of scooters to dealers declined in November, the first time in many years. Its scooter sales slipped 2.2 per cent to 203,076, year on year. The month on month decline in November was much steeper at 28 per cent.

Honda Motorcycle and Scooter India, the biggest two-wheeler player in the country after Hero, gets 67 per cent of its volumes from scooters.

In February this year, HMSI inaugurated its first dedicated scooter plant in India in Gujarat. With expanded capacity, the company was hoping to post 20 per cent growth in 2016-17. Between April and October, its domestic sales grew by 20.8 per cent. This has slowed



DOMESTIC SALES



"THE ENTIRE INDUSTRY WILL FACE THE IMPACT OF DEMONETISATION BUT WE STILL REMAIN CAUTIOUSLY OPTIMISTIC ABOUT DOUBLE-DIGIT GROWTH"

Y S GULERIA
Senior vice-president (sales and marketing), HMSI

down to 18 per cent now.

"The entire industry will face the impact of demonetisation but we still remain cautiously optimistic about double-digit growth," said YS Guleria, senior vice-president, sales and marketing, HMSI.

Activa held the tag of the country's most sold two-wheeler for nine consecutive months of this calendar year. Splendor, the country's most sold motorcycle, reclaimed its position as the most sold two-wheeler in both October and November.

Considering the strong festive

demand in October, many of the company's dealers entered November with zero stock of the Activa, the company said. Two-wheeler dealers were expected to replenish stocks in November.

The company said it rationalised capacity and dispatched two-wheeler units according to market demand. It increased exports by 81 per cent to 26,066 units to offset the decline in domestic demand. "This led to Honda's sales remaining steady while taking care of the financial health of our dealers," said Guleria.

Air India to get ₹80-cr additional budget support in FY17

ARINDAM MAJUMDER
New Delhi, 20 December

State-owned airline Air India will get only ₹80 crore as additional budget support in the current financial year from the government – way below its demand of ₹2,200 crore.

This is despite the fact Air India's chairman and managing director Ashwani Lohani had written to the government that lack of funds might derail the turnaround process of the airline. "The finance ministry accepted the civil aviation ministry's argument that additional fund was necessary for the airline but expressed its inability to accept the full demand," said a senior civil aviation ministry official.

According to AI officials, though, the ₹80 crore being offered is too negligible an amount to be invested in an airline. While the government has said it is ready support the airline, for that to happen the airline also needs to improve its performance.

"The money comes from the Consolidated Fund of India. Every company has to show some performance to get more funding," said an official in the civil aviation ministry.

Lohani had written to the civil aviation ministry last month saying that because of the airline's huge debt burden, a reduced equity infusion would put the airline's expansion plan in jeopardy.

He added that the airline would be forced to raise temporary loans from the banks to bridge the liquidity gap, thus endangering the liquidity

and survival of the company.

Air India has debt of ₹46,000 crore and has annual interest outgo of around ₹4,000 crore.

The challenge before the Air India management is reducing debt. High interest and maintenance expenses have resulted in the airline posting a net loss of ₹3,837 crore in FY16. Air India received ₹1,713 crore in equity in the Union Budget in February against its requirement of ₹3,900 crore. The airline was expecting that the remainder ₹2,200 crore would be released in the supplementary budget, but the finance ministry has turned down the airline's request.

Lower equity infusion could result in increased finance costs and impact the turnaround plan, the airline told the government. Air India is on a ₹30,000-crore government bailout package and has till now received ₹23,993 crore in equity including ₹1,713 crore investment this year.

The infusion is meant to take care of cash deficit and to be used for loan repayment. The airline was hoping to retire debt with equity infusion in 2016.

The airline was also looking at ways to reduce the debt and was discussing restructuring debt worth ₹10,000 crore under the scheme for sustainable restructuring of bad assets floated by the Reserve Bank of India. Simultaneously, sources said the airline was in talks with the Life Insurance Corporation for a loan of ₹10,000 crore for acquisition of aircraft.

Air India posted an operating profit of ₹105 crore in FY16 but has succumbed to losses in the first two quarters of the current financial year.

Airtel to acquire Orascom's stake in MENA

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 20 December

Bharti Airtel on Tuesday said its subsidiary Network 12i has entered into a definitive agreement with Egyptian firm Orascom to acquire the latter's entire equity stake in Middle East North Africa Submarine Cable Systems (MENA-SCS) for an undisclosed amount.

The agreement has been signed with Orascom Telecom Media and Technology Holding.

"With the explosion of data usage in emerging markets, including India and Africa, this (MENA) asset will provide us a scalable and diverse high capacity highway to serve our customers. In particular, it will provide impetus to India's emergence as a major regional internet hub serving customers across SAARC region, with seamless global connectivity," Ajay Chitkara, director and CEO, Global Voice & Data Business of Bharti Airtel said in a statement.

MENA-SCS is a 100 per cent subsidiary of Orascom.

It is live and operational, connecting Mumbai, Oman, Saudi Arabia, Egypt and Italy.

Vedanta Resources slapped with \$100-mn settlement in UK court

PRESS TRUST OF INDIA
London, 20 December

Indian mining giant Vedanta Resources has been ordered by the London High Court to pay over \$100 million to a Zambian investment company related to a 2013 copper price agreement, the state-owned firm claimed on Tuesday.

Vedanta's Konkola Copper Mines (KCM) based in Zambia has been ordered to pay approximately \$103 million to Zambia Consolidated Copper Mines Investments Holdings (ZCCM-IH), the state-owned mining investment firm claimed.



"ZCCM-IH has been successful in its application for default judgement. KCM has been ordered (on 16 December 2016) to pay all sums owed to

ZCCM-IH pursuant to the Settlement Agreement (plus associated contractual interest) within 30 days," a ZCCM-IH statement said.

KCM has also been ordered to reimburse ZCCM-IH 80 per cent of the costs it has incurred in pursuing its claim.

"Further directions have been given to determine whether KCM made payments to Vedanta in breach of the prohibition on doing so under the Settlement Agreement," the statement said.

"If and to the extent it is determined that such payments were made, ZCCM-IH will be entitled to recover additional sums from KCM," it added.

London-listed Vedanta Group is yet to comment on the judgement.

Available on Leave and Licence

7200 sq ft, fully furnished, office space at Paragon Centre, Worli.

Office is centrally located at P. B. Marg, close to Doordarshan Tower and Bandra Worli Sea Link. Interested parties please write to nisarhanif@paragonproperty.in or call Mr. Nisar on 9819018104 or Mr Satose on 9819018103. Web: www.paragonproperty.in

Bank of Baroda
www.bankofbaroda.co.in

REQUEST FOR PROPOSAL

Bank of Baroda invites Request for Proposal (RFP) for; "Supply, Implementation and Maintenance of Collection Management System" "Supply, Implementation and Maintenance of Document Management System" Details are available under Tenders section on Bank's website: www.bankofbaroda.co.in and also available on www.tenders.gov.in. "Addendum", if any, shall be issued on Bank's website under tenders section & on www.tenders.gov.in. Bidder should refer the same before final submission of the proposal. Last date for Submission of all the above RFPs will be 4th January 2017 by 3.30PM.

Place: Mumbai Date: 21.12.2016 General Manager (CTO & Head-IT Projects & CRM)



eClerx Services Limited

Registered Office: Sonawala Building, 1st Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai – 400 023. Tel. No. : +91 22 6614 8301; Fax :+91 22 6614 8655 Corporate Identification Number (CIN): L72200MH2000PLC125319 Contact Person: Mr. Gaurav Tongia, Company Secretary and Compliance Officer Tel. No.:+91 22 6614 8301; Fax:+91 22 6614 8655; E-mail:investor@eclerx.com; Website: www.eclerx.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF ECLERX SERVICES LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 19(7) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998 and subsequent amendments thereof (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated October 14, 2016 published on October 17, 2016 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated November 14, 2016 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

- eClerx Services Limited (the "Company") had announced to buy back up to 1,170,000 (One Million One Hundred Seventy Thousand) fully paid-up equity shares of face value of ₹10 (Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), constituting up to 2.87% of the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Company as on March 31, 2016 ("Buyback"). The Buyback was undertaken on a proportionate basis, from the fully paid-up Equity Shareholder(s) / beneficial owner(s) of the Equity Shares of the Company as on October 28, 2016 ("Record Date"), by way of a Tender Offer for cash at a price of ₹2,000 (Rupees Two Thousand only) per Equity Share aggregating to ₹2,340 million (Rupees Two Thousand Three Hundred and Forty Million only) ("Buyback Size") excluding the transaction cost(s). The Buyback is in accordance with Article 61 of the Articles of Association of the Company, the provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and the Buyback Regulations.
- The Buyback size was 24.95% of the aggregate paid-up equity capital and free reserves of the Company as per the standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2016 (the last audited financial statements available as on the date of the Board meeting held on August 29, 2016) comprising the proposal of the Buyback) and was within the statutory limits of 25% of the fully paid-up equity capital and free reserves as per the last standalone audited financial statements of the Company. The Equity Shares bought back represent 2.87% of the total number of paid-up equity share capital of the Company as on March 31, 2016.
- The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange pursuant to tender offer under Buyback" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015.
- The tendering period for the Buyback Offer was opened on Monday, November 28, 2016 and closed on Friday, December 9, 2016.

2. DETAILS OF THE BUY-BACK

- A total of 1,170,000 Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹2,000 (Rupees Two Thousand only) per Equity Share.
- The total amount utilised in the Buyback is ₹2,340 million (Rupees Two Thousand Three Hundred and Forty Million only) excluding transaction costs, viz. brokerage, applicable taxes, such as securities transaction tax, service tax, stamp duty, etc.
- The Registrar to the Buyback, i.e., Karvy Computers Private Limited, considered a total of 12,012 valid applications for 9,343,369 Equity Shares in response to the Buyback offer resulting in the subscription of approximately 7.99 times of the maximum number of shares proposed to be bought back in the Buyback. The details of the valid applications considered by the Registrar are as under:

Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of valid Applications	Total Shares validly tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholder (Reserved Category)	175,500	11,234	575,344	327.83
General Category for other Eligible Shareholders (General Category)	994,500	778	8,768,025	881.65
Total	1,170,000	12,012	9,343,369	798.58

As per certificate from Registrar

Note:

- All Small Shareholders have validly tendered 575,344 Equity Shares. However, against the Buyback Entitlement of 175,500 Equity Shares, the acceptance under the Buyback Entitlement of the valid bids in the Buyback was only for 108,692 Equity Shares (including acceptance of one (1) Equity Share each from 2,988 (Two Thousand Nine Hundred Eighty Eight) shareholders who had "0" entitlement as on Record Date). In view of the aforesaid response, 66,808 Additional Equity Shares (i.e. Equity Shares tendered over and above the Buyback Entitlement) have been accepted in proportion to the Additional Equity Shares tendered. Accordingly, out of 575,344 Equity Shares validly tendered by the Eligible Sellers in this category, 175,500 Equity Shares have been accepted in the Buyback.
- General Category of other Eligible Shareholders have validly tendered 8,768,025 Equity Shares. However, against the Buyback Entitlement of 994,500 Equity Shares, the acceptance under the Buyback Entitlement of the valid bids in the Buyback was only for 939,764 Equity Shares. In view of the aforesaid response, 54,736 Additional Equity Shares (i.e. Equity Shares tendered over and above the Buyback Entitlement) have been accepted in proportion to the Additional Equity Shares tendered. Accordingly, out of 8,768,025 Equity Shares validly tendered by the Eligible Sellers in this category, 994,500 Equity Shares have been accepted in the Buyback.
- All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to the respective Equity Shareholders on December 19, 2016.
- The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited / BSE Limited on December 19, 2016. The funds in respect of accepted Equity Shares were paid out to the respective Shareholder Broker / custodians.
- Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on December 19, 2016. The unaccepted demat Equity Shares were returned to respective Shareholder Broker / custodians by the Indian Clearing Corporation Limited / BSE on December 19, 2016. There were no Physical Equity Shares tendered in the Buyback.
- The extinguishment of 1,170,000 Equity Shares (all in dematerialized form) accepted under the Buyback are currently under process and shall be completed by December 26, 2016.
- The Company, and its respective directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre-Buyback as on the date of the Public Announcement	Post Buyback ⁽¹⁾
Authorised Share Capital		
50,010,000 Equity Shares of ₹10 each	500,100,000.00	500,100,000.00
Issued, Subscribed and Paid Up Share Capital (Pre Buyback)		
40,882,350 Equity Shares of ₹10 each	408,823,500.00	-
Issued, Subscribed and Paid Up Share Capital (Post Buyback)		
39,712,350 Equity Shares of ₹10 each		397,123,500.00
Total Paid-up Capital	408,823,500.00	397,123,500.00

⁽¹⁾The Company shall extinguish all the Equity Shares bought back during the Buy-Back offer i.e. 1,170,000 Equity Shares.

3.2. Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares
1	ANJAN MALIK	254,965	21.79	0.64
2	PRIVADARSHAN MUNDHRA	254,819	21.78	0.64
3	MATTHEWS INDIA FUND	83,352	7.12	0.21
4	FIDELITY PURITAN TRUST-FIDELITY LOW-PRICED STOCK F	58,722	5.02	0.15
5	SBI MAGNUM BALANCED FUND	28,567	2.44	0.07
6	HDFC TRUSTEE COMPANY LTD - A/C HDFC MID - CAPOPPOR	20,171	1.72	0.05
7	FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - FIAM	17,247	1.47	0.04
8	FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL FUND A/C FRANKLIN INDIA	16,908	1.45	0.04
9	FRANKLIN INDIA SMALLER COMPANIES FUND	16,512	1.41	0.04
10	STEADVIEW CAPITAL MAURITIUS LIMITED	16,157	1.38	0.04
11	UTI - EQUITY FUND	15,654	1.34	0.04
12	SAIF INDIA IV FII HOLDINGS LIMITED	15,131	1.29	0.04

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Category of shareholder	Pre Buyback ⁽¹⁾		Post Buyback ⁽²⁾	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital
Promoters and Promoter Group	20,542,858	50.25	20,031,535	50.44
Foreign Investors (including Non Resident Indians/ FII/ Foreign Mutual Funds/Foreign Nationals)	12,238,084	29.93	19,680,815	49.56
Financial Institutions / Banks and Mutual Funds promoted by Banks / Institutions	4,830,233	11.81		
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	3,271,175	8.00		
Total	40,882,350	100.00	39,712,350	100.00

(1) As on Record Date i.e. October 28, 2016.

(2) Subject to extinguishment of 1,170,000 Equity Shares.

4. MANAGER TO THE BUYBACK



Motilal Oswal Investment Advisors Private Limited
Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai- 400 025, Maharashtra, India
Tel: +91 22 3980 4200 | Fax: +91 22 3980 4315, E-mail: eclex.buyback@motilaloswal.com, Investor Grievance E-mail: moialredressal@motilaloswal.com
Website: http://www.motilaloswalgroup.com, Contact person: Mr. Subodh Mallya, SEBI Registration No.: INM00011005 / Permanent CIN: U67190MH2006PTC160583

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full and final responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of eClerx Services Limited

Sd/- V K Mundhra Chairman (DIN : 00282180)	Sd/- Biren Gabhawala Non-Executive Independent Director (DIN : 03091772)	Sd/- Rohitash Gupta Chief Financial Officer (PAN:AEJPG8265Q)	Sd/- Gaurav Tongia Company Secretary (Membership No : F5955)
---	---	---	---

Date: December 20, 2016
Place: Mumbai

कानूनी लड़ाई शुरू करेंगे वाडिया!

आज होने वाली टाटा स्टील की बैठक में आमने-सामने होंगे टाटा-वाडिया

देव चटर्जी मुंबई, 20 दिसंबर

बैठक तूफानी रहने के आसार

■ वाडिया का संघर्ष टाटा की तरफ से कथित तौर पर कंपनी प्रशासन की गड़बड़ियों व टाटा ट्रस्ट की तरफ से आंतरिक जानकारी मांगने पर लक्षित होगा

■ 2 दिसंबर को सेबी को लिखे पत्र में वाडिया ने सुझाव दिया है कि टाटा की कंपनियों को टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के निदेशक मंडल से उन्हें हटाने की सभी वजहों की जांच के लिए स्वतंत्र व अवकाशप्राप्त व्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए



टाटा स्टील के शेयरधारक बुधवार की बैठक में एक ओर नुस्ली वाडिया को स्वतंत्र निदेशक के पद से हटाने पर फैसला करेंगे, दूसरी तरफ वाडिया स्वतंत्र निदेशक की भूमिका के अवमूल्यन व परिचालन वाली कंपनियों की आंतरिक जानकारी मांगने का आरोप लगाते हुए टाटा पर कानूनी हमले की योजना बना रहे हैं।

बुधवार को होने वाली शेयरधारकों की बैठक में 72 वर्षीय वाडिया ने बोलने का वादा किया है और यहां वे साइरस मिस्त्री-रतन टाटा विवाद के बाद पहली बार अपने पूर्व मित्र रतन टाटा के आमने-सामने होंगे। वाडिया हालांकि चौरफा हमला कर रहे हैं, लेकिन टाटा स्टील की असाधारण आम बैठक और ज्यादा तूफानी रहने की संभावना है क्योंकि टाटा के कई समर्थक इस बैठक में अपने विचार रखेंगे। निदेशक के पद से मिस्त्री को हटाने का प्रस्ताव पहले की समाप्त हो चुका है क्योंकि वह टाटा स्टील के निदेशक मंडल से सोमवार को ही इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वाडिया को हटाने वाला प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाएगा।

एक सूत्र ने कहा, वाडिया का संघर्ष टाटा की तरफ से कथित तौर पर कंपनी प्रशासन की गड़बड़ियों

जिन्होंने टाटा संस के जनरल काउंसिल भारत वसानी का मेल फॉरवर्ड किया था, जिसमें शार्दूल अमरचंद मंगलदास की तरफ से दो कानूनी राय दिए गए थे।

वाडिया ने कहा, यह राय स्वतंत्र निदेशकों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए सामने रखी गई थी कि क्या मिस्त्री को चेयरमैन बने रहना चाहिए और स्वतंत्र निदेशकों को सूचित किया गया था कि अगर वे मिस्त्री का समर्थन करते हैं तो टाटा संस कंपनी से खुद को अलग कर लेगी। दूसरी राय में कहा गया है कि अगर स्वतंत्र निदेशक मिस्त्री के समर्थन की बात करते हैं तो इसे महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है और स्टॉक एक्सचेंजों को इस बारे में सूचना नहीं दी जाएगी। इसके जरिए स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के सदस्यों को सुझाव दिया गया था कि उन्हें खुद किस तरह का व्यवहार करने की दरकार है।

स्वतंत्र निदेशकों की तरफ से मामले पर चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि इसे दरकिनार करना सही होगा और इसे गैर-कानूनी व अनुचित विचार मानना। उधर वाडिया को वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल से एक राय मिली, जिसमें कहा गया था कि टाटा संस के वकील का व्यवहार स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधान के पूरे ढांचे को विकृत बना देने का है।

व टाटा ट्रस्ट की तरफ से आंतरिक जानकारी मांगने पर लक्षित होगा। 2 दिसंबर को सेबी को लिखे पत्र में वाडिया ने सुझाव दिया है कि टाटा की कंपनियों को टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के निदेशक मंडल से उन्हें हटाने की सभी वजहों की जांच के लिए स्वतंत्र व अवकाशप्राप्त व्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए। विशेष नोटिस पूरी तरह से मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए जारी किया गया है और स्वतंत्र निदेशक के तौर पर हमें गलत आधार पर निकालने की बात हो रही है।

चूंकि टाटा की कंपनियों ने इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, वाडिया

ने कहा कि सेबी को इसके बजजाय स्वतंत्र जांच शुरू करनी चाहिए या कंपनियों को ऐसा करने के लिए कहना चाहिए और इस जांच के नतीजे शेयरधारकों की तरफ से होने वाली ई-वोटिंग से पहले सामने रखे जाने चाहिए ताकि शेयरधारक ईजीएम में मतदान से पहले इस जानकारी से अवगत रहें।

स्वतंत्र निदेशकों का किस तरह अवमूल्यन हुआ, इसकी जानकारी देते हुए वाडिया ने कहा कि तय समय से एक घंटा पहले जब टाटा मोटर्स के स्वतंत्र निदेशकों की 14 नवंबर को बैठक हुई थी तो उन्हें कंपनी सचिव होशंग सेठना से ईमेल मिला था,

आईएचसीएल की ईजीएम में टाटा के प्रशंसक

स्वराज बगोपाकर मुंबई, 20 दिसंबर

और एन ए सोनावला भी बैठक की कार्यवाही देखने के लिए अगली पंक्ति में मौजूद थे।

इंडियन होटल्स कंपनी के प्रबंध निदेशक राकेश सरना ने कहा, यह बैठक कंपनी के निदेशक के पद से साइरस मिस्त्री को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। हालांकि सोमवार को कंपनी को मिस्त्री का इस्तीफा मिल गया। इसके परिणामस्वरूप इस बैठक का कोई मकसद नहीं रह गया। पहले ही इस्तीफा दे चुके निदेशक को हटाना अनावश्यक होता। ऐसे में किसी प्रस्ताव पर विचार करने की जरूरत थी और मतदान की भी।

साइरस मिस्त्री और उनके बड़े भाई शापूर

मिस्त्री समेत पांच निदेशकों ने ईजीएम में हिस्सा नहीं लिया। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारिख और गोदेरज इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक नादिर गोदेरज (दोनों आईएचसीएल के स्वतंत्र निदेशक हैं) ईजीएम में मौजूद रहे।

वक्ताओं में अनिल गोयल शामिल रहे, जो आईएचसीएल के पूर्व कार्यकारी निदेशक व वित्त प्रमुख हैं, जिन्होंने इस साल अगस्त में कंपनी छोड़ दी थी और वह भी पुनर्नियुक्ति के महज चार दिन बाद। गोयल ने कहा कि वह टाटा कैपिटल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और आईएचसीएल के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया।



eClerx Services Limited

Registered Office: Sonawala Building, 1st Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.

Tel. No. : +91 22 6614 8301; Fax: +91 22 6614 8655 Corporate Identification Number (CIN): L72200MH2000PLC125319

Contact Person: Mr. Gaurav Tongia, Company Secretary and Compliance Officer

Tel. No.:+91 22 6614 8301; Fax:+91 22 6614 8655; E-mail:investor@eclerx.com; Website: www.eclerx.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF ECLERX SERVICES LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 19(7) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998 and subsequent amendments thereof (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated October 14, 2016 published on October 17, 2016 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated November 14, 2016 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1. eClerx Services Limited (the "Company") had announced to buy back up to 1,170,000 (One Million One Hundred Seventy Thousand) fully paid-up equity shares of face value of ₹10 (Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), constituting up to 2.87% of the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Company as on March 31, 2016 ("Buyback"). The Buyback was undertaken on a proportionate basis, from the fully paid-up Equity Shareholder(s) / beneficial owner(s) of the Equity Shares of the Company as on October 28, 2016 ("Record Date"), by way of a Tender Offer for cash at a price of ₹2,000 (Rupees Two Thousand only) per Equity Share aggregating to ₹2,340 million (Rupees Two Thousand Three Hundred and Forty Million only) ("Buyback Size") excluding the transaction cost(s). The Buyback is in accordance with Article 61 of the Articles of Association of the Company, the provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and the Buyback Regulations.

1.2. The Buyback size was 24.95% of the aggregate paid-up equity capital and free reserves of the Company as per the standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2016 (the last audited financial statements available as on the date of the Board meeting held on August 29, 2016 approving the proposal of the Buyback) and was within the statutory limits of 25% of the fully paid-up equity capital and free reserves as per the last standalone audited financial statements of the Company. The Equity Shares bought back represent 2.87% of the total number of paid-up equity share capital of the Company as on March 31, 2016.

1.3. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange pursuant to tender offer under Buyback" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015.

1.4. The tendering period for the Buyback Offer was opened on Monday, November 28, 2016 and closed on Friday, December 9, 2016.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

1. A total of 1,170,000 Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹2,000 (Rupees Two Thousand only) per Equity Share.
2. The total amount utilised in the Buyback is ₹2,340 million (Rupees Two Thousand Three Hundred and Forty Million only) excluding transaction costs, viz. brokerage, applicable taxes, such as securities transaction tax, service tax, stamp duty, etc.
3. The Registrar to the Buyback, i.e., Karvy Computershare Private Limited, considered a total of 12,012 valid applications for 9,343,369 Equity Shares in response to the Buyback offer resulting in the subscription of approximately 7.99 times of the maximum number of shares proposed to be bought back in the Buyback. The details of the valid applications considered by the Registrar are as under:

Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of valid Applications	Total Shares validly tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholder (Reserved Category)	175,500	11,234	575,344	327.83
General Category for other Eligible Shareholders (General Category)	994,500	778	8,768,025	881.65
Total	1,170,000	12,012	9,343,369	798.58

As per certificate from Registrar

Note:

a) Small Shareholders have validly tendered 575,344 Equity Shares. However, against the Buyback Entitlement of 175,500 Equity Shares, the acceptance under the Buyback Entitlement of the valid bids in the Buyback was only for 108,692 Equity Shares (including acceptance of one (1) Equity Share each from 2,988 (Two Thousand Nine Hundred Eighty Eight) shareholders who had "0" entitlement as on Record Date). In view of the aforesaid response, 66,808 Additional Equity Shares (i.e. Equity Shares tendered over and above the Buyback Entitlement) have been accepted in proportion to the Additional Equity Shares tendered. Accordingly, out of 575,344 Equity Shares validly tendered by the Eligible Sellers in this category, 175,500 Equity Shares have been accepted in the Buyback.

b) General Category of other Eligible Shareholders have validly tendered 8,768,025 Equity Shares. However, against the Buyback Entitlement of 994,500 Equity Shares, the acceptance under the Buyback Entitlement of the valid bids in the Buyback was only for 939,764 Equity Shares. In view of the aforesaid response, 54,736 Additional Equity Shares (i.e. Equity Shares tendered over and above the Buyback Entitlement) have been accepted in proportion to the Additional Equity Shares tendered. Accordingly, out of 8,768,025 Equity Shares validly tendered by the Eligible Sellers in this category, 994,500 Equity Shares have been accepted in the Buyback.

2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to the respective Equity Shareholders on December 19, 2016.

2.5. The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited / BSE Limited on December 19, 2016. The funds in respect of accepted Equity Shares were paid out to the respective Shareholder Broker / custodians.

2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on December 19, 2016. The unaccepted demat Equity Shares were returned to respective Shareholder Broker / custodians by the Indian Clearing Corporation Limited / BSE on December 19, 2016. There were no Physical Equity Shares tendered in the Buyback.

2.7. The extinguishment of 1,170,000 Equity Shares (all in dematerialized form) accepted under the Buyback are currently under process and shall be completed by December 26, 2016.

2.8. The Company, and its respective directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre-Buyback as on the date of the Public Announcement	Post Buyback*
Authorised Share Capital		
50,010,000 Equity Shares of ₹10 each	500,100,000.00	500,100,000.00
Issued, Subscribed and Paid Up Share Capital (Pre Buyback)		
40,882,350 Equity Shares of ₹10 each	408,823,500.00	-
Issued, Subscribed and Paid Up Share Capital (Post Buyback)		
39,712,350 Equity Shares of ₹10 each		397,123,500.00
Total Paid-up Capital		408,823,500.00

*The Company shall extinguish all the Equity Shares bought back during the Buy-Back offer i.e. 1,170,000 Equity Shares.

3.2. Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares
1	ANJAN MALIK	254,965	21.79	0.64
2	PRIYADARSHAN MUNDHRA	254,819	21.78	0.64
3	MATTHEWS INDIA FUND	83,352	7.12	0.21
4	FIDELITY PURITAN TRUST-FIDELITY LOW-PRICED STOCK F	58,722	5.02	0.15
5	SBI MAGNUM BALANCED FUND	28,567	2.44	0.07
6	HFDC TRUSTEE COMPANY LTD - A/C HFDC MID - CAPOPPOR	20,171	1.72	0.05
7	FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - FIAM	17,247	1.47	0.04
8	FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL FUND A/C FRANKLIN INDIA	16,908	1.45	0.04
9	FRANKLIN INDIA SMALLER COMPANIES FUND	16,512	1.41	0.04
10	STEADVIEW CAPITAL MAURITIUS LIMITED	16,157	1.38	0.04
11	UTI - EQUITY FUND	15,654	1.34	0.04
12	SAIF INDIA IV FII HOLDINGS LIMITED	15,131	1.29	0.04

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Category of shareholder	Pre Buyback ⁽¹⁾		Post Buyback ⁽²⁾	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital
Promoters and Promoter Group	20,542,858	50.25	20,031,535	50.44
Foreign Investors (including Non Resident Indians/ FIIs/ Foreign Mutual Funds/Foreign Nationals)	12,238,084	29.93	19,680,815	49.56
Financial Institutions / Banks and Mutual Funds promoted by Banks / Institutions	4,830,233	11.81		
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	3,271,175	8.00		
Total	40,882,350	100.00	39,712,350	100.00

(1) As on Record Date i.e. October 28, 2016.

(2) Subject to extinguishment of 1,170,000 Equity Shares.

4. MANAGER TO THE BUYBACK



Motilal Oswal Investment Advisors Private Limited

Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai- 400 025, Maharashtra, India

Tel: +91 22 3980 4200 | Fax: +91 22 3980 4315. E-mail: ecclerx.buyback@motilaloswal.com, Investor Grievance E-mail: moiapredressal@motilaloswal.com

Website: www.motilaloswalgroup.com, Contact person: Mr. Subodh Malviya, SEBI Registration No.: INM000011005 / Permanent

CIN: U67190MH2006PTC160583

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full and final responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of eClerx Services Limited

Sd/- V K Mundhra Chairman (DIN : 00282180)	Sd/- Biren Gabhawala Non-Executive Independent Director (DIN : 03091772)	Sd/- Rohitash Gupta Chief Financial Officer (PAN:AEJPG8265Q)	Sd/- Gaurav Tongia Company Secretary (Membership No : F5955)
---	---	---	---

Date: December 20, 2016

Place: Mumbai

यूटीआई का आईपीओ अगले साल

यूटीआई म्यूचुअल फंड अगले साल की दूसरी छमाही में आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी एक अरब डॉलर के मूल्यंकन के साथ अधिग्रहणों के जरिए एक बार फिर से वह स्थिति हासिल करना चाहती है, जो उसे कुल साक्ष्य तक मिली हुई थी। इस आईपीओ से देश के सबसे पुराने कोष घरने से चार प्रायोजक एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा पंजाब नेशनल बैंक कंपनी से आंशिक रूप से बाहर निकल सकेंगे। इनके पास कंपनी की 18.5-18.5 फीसदी हिस्सेदारी है। बाकी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिका की निवेश कंपनी टी रो प्राइस के पास है।

3500 करोड़ जुटाएगी रिलायंस होम फाइनेंस

अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस 3500 करोड़ रुपये का ऋणपत्र जारी करेगी, जो 22 दिसंबर को खुलेगा। यह निगम 6 जनवरी तक खुला रहेगा और इस रकम का इस्तेमाल कर्ज, वित्त पोषण, कर्ज के पुनर्भुगतान और कंपनी का सामान्य कामकाज पर होगा। कंपनी के निगम का आधारभूत आकार 1,000 करोड़ रुपये का है और इसके तहत वह सुरक्षित और असुरक्षित 1,000 रुपये की कीमत वाला गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करेगी। अगर ज्यादा आवेदन मिलते हैं तो कंपनी 3500 करोड़ रुपये तक के एनसीडी जारी कर देगी। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी रवींद्र सुधाकर ने एक बयान में यह जानकारी दी। एजेंसियां

क्र.सं.	ऋणी बंधकर्ता का नाम एवं पता	सह- बंधकर्ता/जमानतकर्ता का नाम व पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (संचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि तिथि तक	देय सूचना की तिथि
1.	श्री लक्ष्मी-नंदर बवशी पुत्र श्री केंदर नाथ छिब्वर निवासी 37/3-ए, लेन नं-2, इन्दर बाबा कामेश्वर, नपुर, राजपुर रोड, उत्तरांचल-248001	श्रीमती मनीषी छिब्वर पत्नी श्री लक्ष्मी-नंदर बवशी निवासी 37/3-ए, लेन नं-2, इन्दर बाबा कामेश्वर, नपुर, राजपुर रोड, उत्तरांचल-248001 एवं (1) सी-576, पॉकेट-सी, सरिता विहार, निकट अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली-110044 (2) द्वारा मेसर्स मनीषी छिब्वर 21/22, पुराना सर्वेरी रोड, समता सलिंग स्थान के सामने, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड (3) निवासी खसरा नं 240, मीजा किशनपुर, सम्पत्ति नं 10/9 (पुराना नं 9/1), इन्दर बाबा मार्ग पराना पक्वाडू, देहरादून-248001 (जमानतकर्ता) बीएल्यू ग्रिडर प्राो लि, निदेशक, श्रीमती स्वर्ण छिब्वर (1) 21/22, पुराना सर्वेरी रोड, समता सलिंग स्थान के सामने, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड (2) सी-576, पॉकेट-सी, सरिता विहार, निकट अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली-110044	स्थित प्रापटी नं 10/9, (पुराना नं 9/1) इन्दर बाबा मार्ग, मीजा किशनपुर, पराना पक्वाडू, देहरादून-248001 क्षेत्रफल-501.85 वर्ग मीटर चौहद्दी: पूर्व: अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम: 30 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर: सम्पत्ति श्रीमती जैन, दक्षिण: सम्पत्ति श्री गोयल जी	₹. 1,03,49,775.00 दिनांक 09.06.2016 + देय ब्याज व अन्य खर्च एवं ₹. 65,12,855.00 दिनांक 09.06.2016 + देय ब्याज व अन्य खर्च	13.06.2016 (कच्चा दिनांक 14.12.2016)
2.	श्रीमती रेनु खेरा पुत्र श्री ब्रिज मोहन निवासी मकान नं 530, खुरबुका मोहल्ला, देहरादून-248001, उत्तरांचल, भारत	श्री ब्रिज मोहन पुत्र श्री नन्द लाल खेरा निवासी मकान नं 530, खुरबुका मोहल्ला, देहरादून-248001, उत्तरांचल, भारत एवं: निवासी बी-4, न्यू सब्जी मण्डी, निरंजनपुर, देहरादून-248001 एवं: निवासी प्लॉट नं 33, खसरा नं-1541, ग्राम कनवल रजत इन्क्लेव जी.एम.एस. रोड, पराना सेन्ट्रलडू, देहरादून-248001	स्थित प्लॉट नं 33, खसरा नं-1541, ग्राम कनवल रजत इन्क्लेव जी.एम.एस. रोड, पराना सेन्ट्रलडू, देहरादून-248001	₹. 15,57,240.00 दिनांक 19.08.2016 + देय ब्याज व अन्य खर्च	22.08.2016 (कच्चा दिनांक 14.12.2016)
3.	श्री अशोक विद्यार्थी पुत्र श्री ओम नारायण विद्यार्थी निवासी ए-710, रेल विहार, शे 0 माग-2, तुड़गाँव-122002, हरियाणा एवं: (1) कार्यरत ग्रुप मैनेजर कर्वचर, निदेशक क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रुपिया प्राो लि, 28-पी, सेंटर-44, गुडगाँव-122002, हरियाणा (2) निवासी जे-284, शिवालिक नगर फेज-2, भेल रानीपुर, हरिद्वार-249403, उत्तराखण्ड	श्री ओम नारायण विद्यार्थी पुत्र श्री बदी नारायण विद्यार्थी निवासी जे-284, शिवालिक नगर फेज-2, भेल रानीपुर, हरिद्वार-249403, उत्तराखण्ड	स्थित जे-284, शिवालिक नगर फेज-2, भेल, रानीपुर, हरिद्वार-249403, उत्तराखण्ड क्षेत्रफल-204.75 वर्ग मीटर चौहद्दी: पूर्व: मुखण्ड नं जे-277 पश्चिम: 9 मी 0 चौड़ी सड़क उत्तर: मुखण्ड नं जे-283 दक्षिण: मुखण्ड नं जे-285	₹. 21,99,262.00 दिनांक 26.05.2016 + देय ब्याज व अन्य खर्च	26.05.2016 (कच्चा दिनांक 15.12.2016)
4.	श्री कीर्तिपाल सिंह पुत्र श्री बुद्ध जयराम सिंह निवासी 309, सौरभ विला, नंद विहार, (सोनोखलान जय दीप आश्रम) सुनेहरा रोड-247667 उत्तरांचल, भारत	श्रीमती सुदर्शन सीन पत्नी श्री कोशल पाल सिंह निवासी 309, सौरभ विला, नंद विहार, (सोनोखलान जय दीप आश्रम) सुनेहरा रोड-247667 उत्तरांचल, भारत एवं निवासी खसरा नं 107 एम, नंद विहार कालोनी, मकान नं 307 के पास, ग्राम सुनेहरा, पराना एवं तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार-247667	स्थित खसरा नं 107 एम, नंद विहार कालोनी, मकान नं 307 के पास, ग्राम सुनेहरा, पराना एवं तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार-247667 क्षेत्रफल-390.33 वर्ग मीटर चौहद्दी-पूर्व: 18 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्लॉट मरगाज (ब्रजेस सिंह), उत्तर: 18 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण: चिकेता का प्लॉट	₹. 33,47,062.00 दिनांक 19.08.2016 + देय ब्याज व अन्य खर्च	22.08.2016 (कच्चा दिनांक 15.12.2016)
5.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी सी-10/3, पॉकेट-10, टॉप प्लोर, सेक्टर-15, सोहिनी, नई दिल्ली-11008				



नॉनप्रायमरी कार्यालय : आयसीआयसीआय बैंक टॉवर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - ४०००५१.
 कार्यालय : आयसीआयसीआय बैंक टॉवर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - ४०००५१.

ज्याअर्थी, निम्नस्वाक्षरीकारणी आयसीआयसीआय होम फायनान्स कंपनी लिमिटेडचे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून दि. सिक्युरिटीज इंडस्ट्रीज (एफएमोई) रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदर सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांत सूचनेत नमूद केलेली रक्कम चुकती करण्यासाठी खालील नमूद कर्जदारांना मागणी सूचना जारी केली आहे.

अ. क्र.	कर्जदाराचे नाव / कर्ज खाते क्र.	मिळकतीचे वर्णन / सांकेतिक कब्जाची तारीख	मागणी सूचनेची तारीख / मागणी सूचनेतील रक्कम (₹.)	शाखेचे नाव
१.	विनय राममूर्ती तिवारी / अजय राममूर्ती तिवारी - एनए-२७९/१/६/२/८, मुंबई आग्रा रोड, सी/एच.के.के.वाय इंजि. चएनएस०००००७४९२५	प्लॉट क्र. ८, श्री राम कृपा बंगला, एस क्र. २७९/१ ए + २७९/१/६/२/८, मुंबई आग्रा रोड, सी/एच.के.के.वाय इंजि. कॉलेज, अमृतधाम नगर, नाशिक - १५ डिसेंबर, २०१६	३० डिसेंबर, २०१५ ₹. २४,९२,९३५/-	नाशिक

वरील नमूद कर्जदार/समीदार यांना रक्कम चुकती करण्यासाठी याद्वारे ३० दिवसांची सूचना देण्यात येत आहे, अन्यथा सिक्युरिटी इंडस्ट्रीज (एफएमोई) रुल्स, २००२ च्या नियम ८ आणि ९ अंतर्गत तत्तुर्तुमुसार सदर सूचना प्रसिध्दी तारखेपासून ३० दिवसांच्या समाप्तीनंतर गहाण मिळकतीची विक्री करण्यात येईल. सही / (प्राधिकृत अधिकारी) आयसीआयसीआय होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड

प्राईम सिक्युरिटीज लिमिटेड
 सीआयएस: एल६७१२०एमए१९८२एलएसी०२६७२४
 नॉट. कार्यालय: ११०९/१११०, मेन्क चेंबर्स V, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१
 दू.: +९१-२२-६१८४२५२५
 फॅ.: +९१-२२-२४९७७७७७
 वेबसाईट: www.primsec.com
 ईमेल: prime@primsec.com

सूचना
 सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स), रेग्युलेशन्स, २०१५च्या रेग्युलेशन्स ४७ च्या तत्तुर्तु अन्वये, सूचना याद्वारे देण्यात येते की, प्राईम सिक्युरिटीज लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची सभा मंगळवार, ३ जानेवारी, २०१७ रोजी, इतर गोष्टींवर, ३१ डिसेंबर, २०१६ रोजी संपलेल्या निमाहीकरिताचे कंपनीचे अलेखापरिहित वित्तीय निष्कर्ष विचारात घेण्यास आणि मान्य करण्यास योजनी आहे. सदर माहिती कंपनीचे संकेतस्थळ www.primsec.com आणि स्टॉक एक्सचेंज संकेतस्थळ www.bseindia.com / www.nseindia.com येथेही पाहता येईल.

प्राईम सिक्युरिटीज लिमिटेड करिता
 अजय शाह
 कंपनी सचिव
 मुंबई, २० डिसेंबर, २०१६

NOTICE

HSBC MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given that the Trustees of HSBC Mutual Fund have approved the declaration of dividends under the Quarterly Dividend Options of the following schemes of HSBC Mutual Fund (Fund):

Scheme / Plan / Option	Quantum of Dividend (in ₹ per unit)*	NAV of the Dividend Option (as on December 19, 2016) (in ₹ per unit)
HSBC Income Fund - Investment Plan - Quarterly Dividend	0.24	11.4502
HSBC Flexi Debt Fund - Direct Plan - Quarterly Dividend	0.26	12.5634
HSBC Flexi Debt Fund - Quarterly Dividend	0.25	12.1138
HSBC Monthly Income Plan - Quarterly Dividend	0.30	13.3552
HSBC Monthly Income Plan - Direct Plan Quarterly Dividend	0.30	14.1593

Record Date: December 26, 2016. Face Value: ₹ 10 per unit
 The above dividend is subject to availability of distributable surplus in the Schemes on the record date. Pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend options of the above-mentioned Schemes will fall to the extent of dividend distribution and statutory levy, if any.

*Subject to deduction of applicable dividend distribution tax.
 All the unitholders of the above Schemes whose names appear on the register of unitholders as on the record date will be eligible to receive the dividend.

For & on behalf of HSBC Asset Management (India) Private Limited (Investment Manager to HSBC Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory
Mumbai, December 20, 2016



Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

HSBC Asset Management (India) Private Limited, 16, V.N. Road, Fort, Mumbai-400001.
 e-mail: hsbcmf@camsonline.com, website: www.assetmanagement.hsbc.com/in
 Issued by HSBC Asset Management (India) Private Limited
 CIN-U71440MH2001PTC134220



eClerx Services Limited

Registered Office: Sonawala Building, 1st Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.
 Tel. No. : +91 22 6614 8301; Fax :+91 22 6614 8655 Corporate Identification Number (CIN): L72200MH2000PLC125319
 Contact Person: Mr. Gaurav Tongia, Company Secretary and Compliance Officer
 Tel. No.:+91 22 6614 8301; Fax:+91 22 6614 8655; E-mail:investor@eclerx.com; Website: www.eclerx.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF ECLERX SERVICES LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 19(7) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998 and subsequent amendments thereof (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated October 14, 2016 published on October 17, 2016 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated November 14, 2016 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- THE BUYBACK**
- eClerx Services Limited (the "Company") had announced to buy back up to 1,170,000 (One Million One Hundred Seventy Thousand) fully paid-up equity shares of face value of ₹10 (Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), constituting up to 2.87% of the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Company as on March 31, 2016 ("Buyback"). The Buyback was undertaken on a proportionate basis, from the fully paid-up Equity Shareholder(s) / beneficial owner(s) of the Equity Shares of the Company as on October 28, 2016 ("Record Date"), by way of a Tender Offer for cash at a price of ₹2,000 (Rupees Two Thousand only) per Equity Share aggregating to ₹2,340 million (Rupees Two Thousand Three Hundred and Forty Million only) ("Buyback Size") excluding the transaction cost(s). The Buyback is in accordance with Article 61 of the Articles of Association of the Company, the provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and the Buyback Regulations.
- The Buyback size was 24.95% of the aggregate paid-up equity capital and free reserves of the Company as per the standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2016 (the last audited financial statements available as on the date of the Board meeting held on August 29, 2016 approving the proposal of the Buyback) and was within the statutory limits of 25% of the fully paid-up equity capital and free reserves as per the last standalone audited financial statements of the Company. The Equity Shares bought back represent 2.87% of the total number of paid-up equity share capital of the Company as on March 31, 2016.
- The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange pursuant to tender offer under Buyback" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015.
- The tendering period for the Buyback Offer was opened on Monday, November 28, 2016 and closed on Friday, December 9, 2016.
- DETAILS OF THE BUY-BACK**
- A total of 1,170,000 Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹2,000 (Rupees Two Thousand only) per Equity Share.
- The total amount utilised in the Buyback is ₹2,340 million (Rupees Two Thousand Three Hundred and Forty Million only) excluding transaction costs, viz. brokerage, applicable taxes, such as securities transaction tax, service tax, stamp duty, etc.
- The Registrar to the Buyback, i.e., Karvy Computershare Private Limited, considered a total of 12,012 valid applications for 9,343,369 Equity Shares in response to the Buyback offer resulting in the subscription of approximately 7.99 times of the maximum number of shares proposed to be bought back in the Buyback. The details of the valid applications considered by the Registrar are as under:

Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of valid Applications	Total Shares validly tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholder (Reserved Category)	175,500	11,234	575,344	327.83
General Category for other Eligible Shareholders (General Category)	994,500	778	8,768,025	881.65
Total	1,170,000	12,012	9,343,369	798.58

- # As per certificate from Registrar
- Note:
- Small Shareholders have validly tendered 575,344 Equity Shares. However, against the Buyback Entitlement of 175,500 Equity Shares, the acceptance under the Buyback Entitlement of the valid bids in the Buyback was only for 108,692 Equity Shares (including acceptance of one (1) Equity Share each from 2,988 (Two Thousand Nine Hundred Eighty Eight) shareholders who had "0" entitlement as on Record Date). In view of the aforesaid response, 66,808 Additional Equity Shares (i.e. Equity Shares tendered over and above the Buyback Entitlement) have been accepted in proportion to the Additional Equity Shares tendered. Accordingly, out of 575,344 Equity Shares validly tendered by the Eligible Sellers in this category, 175,500 Equity Shares have been accepted in the Buyback.
 - General Category of other Eligible Shareholders have validly tendered 8,768,025 Equity Shares. However, against the Buyback Entitlement of 994,500 Equity Shares, the acceptance under the Buyback Entitlement of the valid bids in the Buyback was only for 939,764 Equity Shares. In view of the aforesaid response, 54,736 Additional Equity Shares (i.e. Equity Shares tendered over and above the Buyback Entitlement) have been accepted in proportion to the Additional Equity Shares tendered. Accordingly, out of 8,768,025 Equity Shares validly tendered by the Eligible Sellers in this category, 994,500 Equity Shares have been accepted in the Buyback.
- All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to the respective Equity Shareholders on December 19, 2016.
 - The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited / BSE Limited on December 19, 2016. The funds in respect of accepted Equity Shares were paid out to the respective Shareholder Broker / custodians.
 - Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on December 19, 2016. The unaccepted demat Equity Shares were returned to respective Shareholder Broker / custodians by the Indian Clearing Corporation Limited / BSE on December 19, 2016. There were no Physical Equity Shares tendered in the Buyback.
 - The extinguishment of 1,170,000 Equity Shares (all in dematerialized form) accepted under the Buyback are currently under process and shall be completed by December 26, 2016.
 - The Company, and its respective directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre-Buyback as on the date of the Public Announcement	Post Buyback*
Authorised Share Capital		
50,010,000 Equity Shares of ₹10 each	500,100,000.00	500,100,000.00
Issued, Subscribed and Paid Up Share Capital (Pre Buyback)		
40,882,350 Equity Shares of ₹10 each	408,823,500.00	-
Issued, Subscribed and Paid Up Share Capital (Post Buyback)		
39,712,350 Equity Shares of ₹10 each		397,123,500.00
Total Paid-up Capital	408,823,500.00	397,123,500.00

*The Company shall extinguish all the Equity Shares bought back during the Buy-Back offer i.e. 1,170,000 Equity Shares.

3.2. Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares
1	ANJAN MALIK	254,965	21.79	0.64
2	PRIYADARSHAN MUNDHRA	254,819	21.78	0.64
3	MATTHEWS INDIA FUND	83,352	7.12	0.21
4	FIDELITY PURITAN TRUST-FIDELITY LOW-PRICED STOCK F	58,722	5.02	0.15
5	SBI MAGNUM BALANCED FUND	28,567	2.44	0.07
6	HDFC TRUSTEE COMPANY LTD - A/C HDFC MID - CAPOPPOR	20,171	1.72	0.05
7	FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - FIAM	17,247	1.47	0.04
8	FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL FUND A/C FRANKLIN INDIA	16,908	1.45	0.04
9	FRANKLIN INDIA SMALLER COMPANIES FUND	16,512	1.41	0.04
10	STEADVIEW CAPITAL MAURITIUS LIMITED	16,157	1.38	0.04
11	UTI - EQUITY FUND	15,654	1.34	0.04
12	SAIF INDIA IV FII HOLDINGS LIMITED	15,131	1.29	0.04

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Category of shareholder	Pre Buyback ⁽¹⁾		Post Buyback ⁽²⁾	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital
Promoters and Promoter Group	20,542,858	50.25	20,031,535	50.44
Foreign Investors (including Non Resident Indians/ FIIs/ Foreign Mutual Funds/Foreign Nationals)	12,238,084	29.93	19,680,815	49.56
Financial Institutions / Banks and Mutual Funds promoted by Banks / Institutions	4,830,233	11.81		
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	3,271,175	8.00		
Total	40,882,350	100.00	39,712,350	100.00

(1) As on Record Date i.e. October 28, 2016.
 (2) Subject to extinguishment of 1,170,000 Equity Shares.

MANAGER TO THE BUYBACK



Motilal Oswal Investment Advisors Private Limited
 Motilal Oswal Tower, Rahimullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai-400 025, Maharashtra, India
 Tel: +91 22 3980 4200 | Fax: +91 22 3980 4315, E-mail: eclerx.buyback@motilaloswal.com, Investor Grievance E-mail: moialredressal@motilaloswal.com
 Website: http://www.motilaloswalgroup.com, Contact person: Mr. Subodh Mallaya, SEBI Registration No.: INM000011005 / Permanent
 CIN: U67190MH2006PTC160583

DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full and final responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of eClerx Services Limited

Sd/- V K Mundhra Chairman (DIN : 00282180)	Sd/- Biren Gabhawala Non-Executive Independent Director (DIN : 03091772)	Sd/- Rohitash Gupta Chief Financial Officer (PAN:AEJPG82650)	Sd/- Gaurav Tongia Company Secretary (Membership No : F5955)
---	---	---	---

Date: December 20, 2016
 Place: Mumbai



TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
 DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

To: 1. **Senator Motors Private Limited**
 5/6, Poonam Heights, S.V.Road, Goregaon (West), Mumbai - 400 062
 2. **Mr. Puneet Kumar**
 1201, Interface Heights 'A', Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064
 3. **Mr. Lalit Kumar**
 1201, Interface Heights 'A', Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064
 4. **Ashtavinayak Auto Private Limited**
 Gala No. 7 & 8, Poonam Heights, Opp. MTNL, Goregaon (West), Mumbai - 400 062

- We, **Tata Capital Financial Services Limited** duly registered with the Reserve Bank of India and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having our registered office at One Forbes, Dr.V.B. Gandhi Marg, Fort, Mumbai - 400 001 and an office amongst other places at Peninsula Business Park, Tower A, 11th Floor, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 do hereby serve upon you the following notice u/s 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as the 'Act')
- You Noticee No.1, approached TCL for availing financial assistance and represented that You Noticee No.1 are financially sound and in a position to honour its financial obligations.
- Based on the representations and warranties made by You Noticee No.1, the following loans/facilities ("Loans/Facility/ies") are availed by You Nos. 1 to 4 from TCL/TCFSL:

Loan Account No.	Nature of Loans/Facility/ies	Loan Amount (in Rs)		Date	Nature of Facility Documents
		Loan Amount	Outstanding Amount as on 18th Nov 2016		
6001647	Channel Finance Facility	Rs. 7,00,00,000/- (Rupees Seven Crores Only)		28.12.2011 29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 20.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 31.07.2012 23.10.2012 28.12.2012 28.12.2012 28.03.2013 03.04.2013 30.05.2013 30.05.2013 30.09.2013 28.06.2014	Sanction Letter Channel Finance Agreement Demand Promissory Note Letter of Lien and Set off Deed of Guarantee executed by Noticees 2 and 3 Deed of Guarantee executed by Noticee 4 Undertaking to Mortgagee cum Power of Attorney executed by Noticee No. 2 Affidavit of Net worth by Noticees 2 and 3 Equitable Mortgage by deposit of Title Deeds by Noticee No. 2 Affidavit declaring ownership Of mortgaged property Power of Attorney 1st Adhoc Facility Letter (Rs. 1,00,00,000) 2nd Adhoc Facility Letter (Rs. 1,50,00,000) Revival Letter 3rd Ad hoc Facility Letter (Rs. 2,00,00,000) Revival Letter Affidavit of Net worth of Noticee Nos. 2 and 3 Revival Letter Confirmation of Guarantees by Noticees Nos. 2,3 and 4 4th Ad hoc Facility Letter(Rs. 2,00,00,000) 4th Ad h Revival Letter oc Facility Letter
TOTAL		6,40,25,115.11/- (Six Crores Forty lakhs Twenty Five thousand One hundred and Fifteen only)			

- TCFSL had sanctioned a Channel finance facility of Rs. 7,00,00,000/- (Rupees Seven Crores only) as rescheduled above to You No. 1 subject to the terms and conditions agreed and recorded between the parties.
- Pursuant to the said sanction/s, under the Facility/ies we disbursed the said amounts to you/ No.1 as instructed by you after you having executed the Facility Documents mentioned hereinabove. The repayment of the aforesaid amounts under the Facility/ies is guaranteed by You Nos. 2, 3 and 4 respectively.
- As on 18th November 2016 under and in respect of the Facility/ies an amount of Rs. 6,40,25,115.11/- (Rupees Six Crores Forty lakhs Twenty Five thousand One hundred and Fifteen Only) is due and payable by you to TCFSL with further interest at the contractual rate till date of repayment of the dues. The repayment of the said amounts under the Facility/ies are secured by mortgage of security offered by you No. 2 as set out in **Schedule A** hereto.
- Despite opportunities granted, You Noticee No.1 have continued to remain in default of payment obligations and neglected to discharge the debt due to TCFSL under the said Facility/ies. As an upshot thereof, TCFSL, in accordance with the directions and guidelines issued by the Reserve Bank of India, and as defined in Section 2(o) of the Act, has on 19th February 2016 classified the account of You Noticee No.1 as a Non-Performing Asset.
- In the circumstances, TCFSL hereby invokes the provisions of the Act and enforces the security interest created by You Noticee No. 2 over the secured assets in favour of TCFSL.
- You are called upon by this notice issued under Section 13 (2) of the Act, to make payment of Rs. 6,40,25,115.11/- (Rupees Six Crores Forty lakhs Twenty Five thousand One hundred and Fifteen Only) with further interest at the contractual rate till date of repayment of the dues within sixty days from the date of this notice, failing which we shall be constrained to take recourse to all or any of the measures prescribed under sub-section (4) of Section 13 of the Act in accordance with law and/or other Acts, whichever applicable please note.
- This is to further notify you that you are under a legal obligation not to transfer the secured asset or create any right, title or interest by way of sale, lease, tenancy or license or any other rights whatsoever, in or over the secured asset, or otherwise dealing with the secured assets in any manner whatsoever to the prejudice of our interest, without obtaining our prior written consent and the same is also prohibited under sub-section (13) of Section 13 of the said Act. It may also be noted that as per Section 29 of the Act, if any person contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or rules made there under, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.
- Further please note that in the event of default in making payment of the aforesaid amount as demanded in full within 60 days from the date of this notice, we shall take measures under sub-section 4 of Section 13 of the Act. You shall further be liable to pay all costs, charges and expenses incurred by us in this connection under sub-section 7 of Section 13 of the Act. In case the dues to us are not fully recovered/ satisfied with the sale proceeds of the secured assets, you shall continue to be liable to pay us the balance amount and we reserve the right to initiate appropriate proceedings for recovery.

This notice is issued without prejudice to all other rights, remedies and contentions of TCFSL as available to it under law.

YOURS FAITHFULLY
 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
 AUTHORISED OFFICER

Schedule A
ITEM 1
Description of Mortgaged Property

A commercial premise admeasuring about 875 sq feet carpet area being stores No. 2 on the ground floor of the building known as "Poonam Heights" constructed on all that pieces and parcels of plots of land admeasuring about 8037.30 sq mtrs. being plot nos. 11 and 12 of Udyog Nagar Estate, bearing Survey No. 52, Hissa No. 1 (part), CTS No. 916 and 1393 of Village pahadi, Taluka Borivali, District and registration district of Mumbai City and Mumbai Suburban and within the limits of the "P-South" ward of the Brihanmumbai Mahanagarpalika.

ITEM 2

A commercial premise admeasuring about 335 sq feet carpet area being unit No. 3 on the basement of the building known as "Poonam Heights" constructed on all that pieces and parcels of plots of land admeasuring about 8087.30 sq metres. being plot nos. 11 and 12 of Udyog Nagar Estate, bearing Survey No. 52, Hissa No. 1 (part), CTS No. 916 and 1393 of Village Pahadi, Taluka Borivali, District and registration district of Mumbai City and Mumbai Suburban and within the limits of the P-South Ward of the Brihanmumbai Mahanagarpalika.